

ted houses from the general pool but have not been given possession thereof are indicated in the statement enclosed. Regarding bungalow/flats in Lok Sabha Pool information is available with the Lok Sabha Secretariat.

Allotment of Flats to new Members of Lok Sabha

2497. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL:
SHRI R. L. P. VERMA:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the number of new Members of the present Lok Sabha who have not been allotted flats so far because ex-Members have not vacated them?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Allotment of flats to the Members of the Lok Sabha is made by the House Committee of the Lok Sabha. Government do not, therefore, have the information in this regard. However, 78 Members of the 5th Lok Sabha who are not Members of the 6th Lok Sabha have still not vacated Government residences—65 in the M.Ps. Pool and 13 in the General Pool. Members of the 6th Lok Sabha who have been allotted some of these, could not occupy them so far.

विदेशों से उर्वरकों का आयात किया जाना

2498. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कितना-कितना और किस-किस प्रकार का उर्वरक आयात किया गया;

(ख) उनका मूल्य निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और

(ग) क्या आयातित उर्वरकों की देश में आने पर जांच की गई थी और यदि हां,

तो किस के द्वारा जांच की गई थी और क्या उनमें मूल तत्व निर्धारित मात्रा में विद्यमान थे ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) पिछले दो सालों के दौरान आयात किए गए उर्वरकों की मात्रा और किस्म नीचे दी गई है :

(लाख मीटरी टन)		
जिस	1975-76	1976-77
1. यूरिया	14.59	15.96
2. एमोनियम सल्फेट	0.93	..
3. कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	1.95	0.05
4. म्यूरिएट आफ पोटाश	3.63	4.51
5. सल्फेट आफ पोटाश	..	0.11
6. डाय-अमोनियम फास्फेट	4.62	0.30
7. नाइट्रोफास्फेट 20:20:0	2.44	0.35
8. नाइट्रोफास्फेट 24:24:0	0.98	.
9. एन०पी०के० 15:15:15	2.19	0.13
10. एन०पी०के० 14:14:14	0.10	..
11. नाइट्रोफास्फेट 23:23:0	0.08	..
12. एन०पी०के० 13:13:20	0.02	..
13. एन०पी०के० 17:17:17	0.75	..
14. एन०पी०के० 17:17:16	0.10	..
15. एमोनियम फास्फेट 19:20	0.08	-..
16. एमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	0.10	..
योग	32.56	21.41